



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17, 1982/चैत्र 27, 1904
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17, 1982/CHAITRA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1982

आ० ४० 31(अ).—बिहार राज्य के 53 लोहरदगा (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री कार्तिक उराव की मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है,

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसी हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 24 मई, 1982 (सोमवार) से पूर्व उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति का हो निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/बिहार-लो० सं० 1/81 (1)]

55 G 1/82

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th April, 1982

O.N. 31(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Kartik Oraon, a member elected to that House from 53-Lohardaga (ST) constituency in the State of Bihar;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person belonging to the Scheduled Tribes to fill the said vacancy before the 24th May, 1982 (Monday), in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

[No. 100/BR-HP/1/81(1)]

आ० ४० 32(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/बिहार-लो० सं० 1/81 (1), तारीख 17 अप्रैल, 1982 के अनुसरण में बिहार राज्य के 53 लोहरदगा (अ० ज० जा०)

(59)

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में,

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए 24 अप्रैल, 1982
अन्तिम तारीख (शनिवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की 26 अप्रैल, 1982
तारीख (सोमवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की 28 अप्रैल, 1982
अन्तिम तारीख (बुधवार)
- (घ) वह तारीख जिसमें यदि आव- 19 मई, 1982
श्यक हो तो मतदान होगा। (बुधवार)
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन 24 मई, 1982
समाप्त कर दिया जाएगा। (सोमवार)

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/बिहार-लो० सं० 1/81 (2)]

O.N. 32(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 53-Lohardaga (ST) Parliamentary Constituency in the State of Bihar in pursuance of its notification No. 100/BR-HP/1/81(1), dated the 17th April, 1982—

- (a) the 24 April, 1982 (Saturday), as the last date for making nominations;
- (b) the 26 April, 1982 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 28 April, 1982 (Wednesday), as the last date for withdrawal of candidatures;

- (d) the 19 May, 1982 (Wednesday), as the date which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 24 May, 1982 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/BR-HP/1/81(2)]

आ० नं० 33(घ). -लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/बिहार-लो० सं० 1/81 (1), तारीख 17 अप्रैल, 82 के अनुसरण में लोक सभा के लिए 53-लोहार्दगा (अ० ज० जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 7.30 बजे पूर्वाह्न से 4-30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा।

[सं० 100/बिहार-लो० सं० 1/81/(3)]

आदेश से,

सतीश चन्द्र जैन, अवसर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 33(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.30 A.M. to 4.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 53-Lohardaga (ST) Parliamentary constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/BR-HP/1/81(1), dated the 17th April, 1982.

[No. 100/BR-HP/1/81(3)]

By Order,

S. C. JAIN, Under Secy.
Election Commission of India